



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012020-215515  
CG-DL-E-17012020-215515

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 214]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 15, 2020/पौष 25, 1941

No. 214]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 15, 2020/PAUSHA 25, 1941

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी 2020

**का.आ. 224(अ).**—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.2921(अ) तारीख 09 अगस्त 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) तारीख 10 अगस्त 2019 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के कि.मी. 359.200 से कि.मी.400.100 तक के भू-खण्ड (भोपाल-ब्यावरा खण्ड) के निर्माण(चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 05 सितम्बर, 2019 को "दैनिक भास्कर" और "पत्रिका" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (भोपाल-ब्यावरा खण्ड) के कि.मी. 359.200 से 400.100 तक चौड़ीकरण एवं उन्नयन हेतु अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश जिले का नाम: राजगढ़					
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नरसिंहगढ़					
गांव का नाम: बडोदिया					
1	723/3	सरकारी	चारागाह	0.75	शासकीय चारागाह (७२३/३)
गांव का नाम: बरीगादिया					
2	40/2	निजी	डायवर्टेड	0.025	पुष्पलता बाई पत्नी बंशीलाल मनीषा बाई पत्नी जितेन्द्र गुप्ता जाती महाजन पता नि. नरसिंहगढ़ भूमि स्वामी ना.प.क्र. 4 आ.दि. 16.03.2009 (कृषि भिन्न आशय) भू-भाटक 1890.00 (४०/२)
गांव का नाम: गादिया					
3	91/2/1/1/2	निजी	असिंचित	0.009	ममताबाई पति अवधनारायण रामकली बाई पिता दिनेश जाती धनगर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.10 (९१/२/१/१/२)
4	91/2/2/1	निजी	असिंचित	0.03	सनदीपाबाई पत्नी मोहनलाल जाती काछी पता निवासी ग्राम चारपुरा भूमि स्वामी न.प.क्र. 4 आ.दि. 17.02.2011 भू-राजस्व 0.20 (९१/२/२/१)
5	91/3/1	निजी	असिंचित	0.043	दीपक अग्रवाल पिता कामताप्रसाद जाती महाजन पता निवासी ग्राम नरसिंहगढ़ भूमि स्वामी ना.प.क्र. 2.2010.11 आ. दि. 13.01.2011 भू-राजस्व 0.27 (९१/३/१)
गांव का नाम: कुरावर					
6	683/13/1/1	निजी	असिंचित	0.002	मोहम्मद नौशाद मोहम्मद ईफतखार नसीम बी शाईन बी पिता ईरशाद मोहम्मद जाती मुसलमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.39 (६८३/१३/१/१)
7	721/2/2/5	निजी	असिंचित	0.002	रूपकंवर पति राजेन्द्र सिंह जाती राजपूत पता निवासी ग्राम लसुड्या पातला तह

					कालापील भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.06 (७२१/२/२/५)
8	721/2/2/6/1	निजी	असिंचित	0.003	श्रीमति मुन्नीबाई पिता कंवरलाल जाती राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.03 (७२१/२/२/६/१)
9	733/4	निजी	डायवर्टेड	0.016	मन्नान सैफी शिपतेन सैफी पिता मुख्तार हुसैन जाती बोहरा पता नि- नरसिंहगढ़ भूमि स्वामी (७३३/४)
10	736/1/14/8	निजी	डायवर्टेड	0.001	Mrs दीपवै W/o नरेश कुमार जाती सुतार एड्रेस निवासी श्यामपुर डिस्ट्रिक्ट सीहोरे लैंड ओन (७३६/१/१४/८)
गांव का नाम: पीलूखेड़ी					
11	24/1	निजी	सिंचित	0.1	गोविन्दराम पिता सिंदूरलाल जाती महाजन पता निवासी कुरावर भूमि स्वामी भू- राजस्व 9.37 (२४/१)
12	53/2	सरकारी	सिंचित	0.35	शासकीय (५३/२)
13	55/1/1/3	निजी	असिंचित	0.035	देवचंद बनेसिंह कंचनबाई पिता प्रभुलाल जाती गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.65 (५५/१/१/३)
14	55/2/1/1/1	निजी	असिंचित	0.06	बनेसिंह पिता प्रभुलाल जाती गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.50 (५५/२/१/१/१)
15	55/2/1/1/2/1	निजी	असिंचित	0.045	बनेसिंह पिता प्रभुलाल जाती गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.50 (५५/२/१/१/२/१)
16	55/2/1/1/2/2	निजी	असिंचित	0.014	प्रवीण सिंगी पिता शिवप्रसाद जी सिंगी जाती महाजन पता निवासी कुरावर भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.60 (५५/२/१/१/२/२)
17	55/2/1/2	निजी	असिंचित	0.018	जगदीशप्रसाद पिता रामप्रसाद जाती कलाल पता निवासी भू-राजस्व 1.00 (५५/२/१/२)
18	55/2/2	निजी	असिंचित	0.018	गंगाराम पिता रामप्रसाद जाती कलाल भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.00 (५५/२/२)
19	56/1	निजी	सिंचित	0.16	प्रमोदसक्सेना पिता कमलाप्रसाद सक्सेना जाती कायस्त पता निवासी कुरावर भूमि स्वामी ना.प.क्र. 1आ.दि. 17-10-01 अनुसार भू-राजस्व 6.72 (५६/१)

20	56/2	निजी	सिंचित	0.03	अशोककुमार पिता कमलाप्रसाद जाती कायस्त पता निवासी कुरावर भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.15 (५६/२)
21	57/1/1/1	निजी	सिंचित	0.07	धरम सिंह पिता गोरधन सिंह जाती राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (५७/१/१/१)
22	57/1/1/2	निजी	सिंचित	0.03	राकेश पिता कैलाशचन्द्र अग्रवाल जाती महाजन पता निवासी बजरंग नगर इन्दौर भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.38 (५७/१/१/२)
23	57/1/2	निजी	सिंचित	0.11	चन्दर सिंह पिता गोरधन सिंह जाती राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 6.33 (५७/१/२)
24	57/2/1	निजी	असिंचित	0.007	कालुराम पिता मांगीलाल जाती गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.47 (५७/२/१)
25	57/2/2	निजी	असिंचित	0.007	नारायणसिंह पिता धुन्नीलाल जाती कलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.47 (५७/२/२)
26	58/1/1/1/1	निजी	असिंचित	0.035	मोतीसिंह पिता भंवरलाल जाती राजपूत पता निवासी बिलहेरी भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.65 (५८/१/१/१/१)
27	58/1/1/2	निजी	असिंचित	0.013	स्त्यनारायण पिता नन्दलाल जाती महाजन पता निवासी कुरावर भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.72 (५८/१/१/२)
28	58/1/2	निजी	असिंचित	0.015	स्त्यनारायण पिता नन्दलाल जाती महाजन पता निवासी कुरावर भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.71 (५८/१/२)
29	58/1/3	निजी	असिंचित	0.015	स्त्यनारायण पिता नन्दलाल जाती महाजन पता निवासी कुरावर भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.71 (५८/१/३)
30	58/1/4	निजी	डायवर्टेड	0.025	स्त्यनारायण पिता नन्दलाल जाती महाजन पता निवासी कुरावर भूमि स्वामी (कृषि भिन्न आशय) भू-भाटक 2646.00 (५८/१/४)
31	58/2	निजी	सिंचित	0.04	भगवान सिंह पिता सजनसिंह जाती राजपूत पता निवासी बिलेटरी भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.94 (५८/२)

	गांव का नाम: सागपुर				
32	145/1/1	निजी	सिंचित	0.004	भेरु सिंह पिता देवीसिंह जाती राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.90 (१४५/१/१)
33	145/4/2/2	निजी	डायवर्टेड	0.005	जगदीश पिता शिवनारायण जाती धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (कृषि भिन्न आशय) भू-भाटक 210.00 (१४५/४/२/२)
34	148/2/11	निजी	असिंचित	0.006	नवरंगलाल पिता अमरसिंह जाती धाकड़ पता निवासी राजेन्द्र नगर बैरागढ़ भोपाल भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.05 (१४८/२/११)
35	148/2/5	निजी	सिंचित	0.001	महेश संजय पिता मांगीलाल जाती महाजन पता निवासी बसस्टैंड नरसिंहगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.05 (१४८/२/५)
36	148/2/9	निजी	असिंचित	0.006	नीलमबाई पत्नी भानुप्रकाश भावनाबाई पत्नी गोपाल प्रसाद जाती छीपा पता नरसिंहगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.05 (१४८/२/९)
	गांव का नाम: सोनकच्छ				
37	466/1	निजी	असिंचित	0.073	ईसरलाल पिता बैजनाथ जाती दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.75 (४६६/१)
38	466/2	निजी	असिंचित	0.039	विनोदकुमार पिता रंगलाल गुलकन्दबाई अनिताबाई पिता रंगलाल मू केशरबाई बेवा रंगलाल जाती दांगी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.75 (४६६/२)
39	466/3	निजी	असिंचित	0.168	चन्द्रलाल पिता बैजनाथ जाती दांगी भूमि स्वामी भू-राजस्व 3.75 (४६६/३)
	गांव का नाम: तिन्दोनिया				
40	41/2/2/1/2/2	निजी	सिंचित	0.036	रामगोपाल पिता हरिचरण जाती खाती पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.27 (४१/२/२/१/२/२)
41	41/2/2/1/3/2	निजी	सिंचित	0.089	पार्वतीबाई पिता दुलीचंद जाती कलाल पता निवासी रावजी का चौक नरसिंहगढ़ भूमि स्वामी भू-राजस्व 1.06 (४१/२/२/१/३/२/१)
			कुल	2.505	

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2020

**S.O. 224(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 2921(E) dated the 9th August, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 12 on the stretch of land from Km. 359.200 to Km. 400.100 (Bhopal - Biaora section) in the district of Rajgarh in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagran” and “*Patrika*” both dated 5th September 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 359.200 to Km. 400.100 (Bhopal - Biaora Section) of the National Highway No.12 in the district of RAJGARH in the State of MADHYA PRADESH**

State: MADHYA PRADESH			District: RAJGARH		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	<b>Taluk: Narsinghgarh</b>				
	<b>Village: Badodiya</b>				
1	723/3	Government	Grazing Land	0.75	Grazing Land 723/3
	<b>Village: Barigadiya</b>				
2	40/2	Private	Diverted	0.025	Mrs. Pushplata bai W/o Banshilaal Manisha Bai W/o Jitendar Gupta Jati Mahajan Address Niwasi Narsingharh Land Owner 1890.00 40/2
	<b>Village: Gadiya</b>				
3	91/2/1/1/2	Private	Non-irrigated	0.009	Mrs. Mamtabai W/o Awdhinarayan Ramkali S/o Dinesh jati Dhangar Address Niwasi Gram Land Owner 0.10 91/2/1/1/2

4	91/2/2/1	Private	Non-irrigated	0.03	Mrs Sandeepbai W/o Mohanlaal Jati Kaachi Address Gram Charpura Land Owner 0.20 91/2/2/1
5	91/3/1	Private	Non-irrigated	0.043	Deepak Agrawal S/o Kamtaprasad Jati Mahajan Address Niwasi Gram Narsingharh Land Owner 0.27 91/3/1
<b>Village: Kurawar</b>					
6	683/13/1/1	Private	Non-irrigated	0.002	Moh. Naushad Moh. Ifatkhar Nasim Bi S/o Irshaad Moh. Jati Muslim Address Niwasi Gram Ladn Owner 0.39 683/13/1/1
7	721/2/2/5	Private	Non-irrigated	0.002	Roopkuwar W/o Rajendra Singh Rajpoot Address Niwasi Gram Lasudiya Paatlaa Tehsil Kaalapeepal Land Owner 0.06 721/2/2/5
8	721/2/2/6/1	Private	Non-irrigated	0.003	Mrs Munnibai S/o Kuwarlaal Jati Rajpoot Address Niwasi Gram Land Owner 0.03 721/2/2/6/1
9	733/4	Private	Diverted	0.016	Mannan Saifi Shitpten Saifi S/o Mukhtar Hussain Jati Bohara Address Niwasi Narsingharh Land Owner 733/4
10	736/1/14/8	Private	Diverted	0.001	श्रीमति दीपाबाई पति नरेश कुमार जाती सुतार पता निवासी श्यामपुर जिला सीहोर भूमि स्वामी 736/1/14/8
<b>Village: Peelukhedi</b>					
11	24/1	Private	Irrigated	0.1	Govindram S/o Sindumal Jati Mahajan Address Niwasi Kurawar Land Owner 9.37 24/1
12	53/2	Government	Irrigated	0.35	Government 53/2
13	55/1/1/3	Private	Non-irrigated	0.035	Devchand Banesingh kanchanbai S/o Prabhulaal Jati Gadri Address Niwasi Gram Land Owner 1.65 55/1/1/3
14	55/2/1/1/1	Private	Non-irrigated	0.06	Bane Singh S/o Prabhulaal Jati Gadri Address Niwasi Gram Land Owner 3.50 55/2/1/1/1

15	55/2/1/1/2/1	Private	Non-irrigated	0.045	Bane Singh S/o Prabhulaal Jati Gadri Address Niwasi Gram Land Owner 3.50 55/2/1/1/2/1
16	55/2/1/1/2/2	Private	Non-irrigated	0.014	Praveen Singi S/o Shivprasadji Singi Jati Mahajan Address Niwasi Kurawar Land Owner 0.60 55/2/1/1/2/2
17	55/2/1/2	Private	Non-irrigated	0.018	Jagdishprasad S/o Ramprasad Jati Kalaal Niwasi Land Revenue 1.00 55/2/1/2
18	55/2/2	Private	Non-irrigated	0.018	Gangaram S/o Ramprasad Jati Kalaal Land Owner. 1.00 55/2/2
19	56/1	Private	Irrigated	0.16	Pramod Saxena S/o Kamlaprasad Saxena Jati Kayst Address Niwasi Kurawar Land Owner 6.72 56/1
20	56/2	Private	Irrigated	0.03	Ashok Kumar S/o Kamlaprasad Jati Kayst Address Niwasi Kurawar Land Owner 1.15 56/2
21	57/1/1/1	Private	Irrigated	0.07	Dhram singh S/o Gordhan Singh Jati Rajpoot Address Niwasi Gram Land Owner 57/1/1/1
22	57/1/1/2	Private	Irrigated	0.03	Rakesh S/o Kailashchandr agrawal Jati Mahajan Address Niwasi Bajrang Nagar Indore Land Owner 1.38 57/1/1/2
23	57/1/2	Private	Irrigated	0.11	Chandar Singh S/o Gordhan Singh Jati Rajpoot Address Niwasi Gram Land Owner 6.33 57/1/2
24	57/2/1	Private	Non-irrigated	0.007	Kaaluram S/o Maangilaal Jati Gadri Address Niwasi Gram Land Owner 0.47 57/2/1
25	57/2/2	Private	Non-irrigated	0.007	Narayan Singh S/o Dhunnilaal Jati Kalaal Address Niwasi Gram Land Owner 0.47 57/2/2
26	58/1/1/1/1	Private	Non-irrigated	0.035	Motisingh S/o Bhawarlaal Jati Rajpoot Address Niwasi Bilheri Land Owner 1.65 58/1/1/1/1
27	58/1/1/2	Private	Non-irrigated	0.013	Satynarayan S/o Nandlaal Jati



					Mahajan Address Niwasi Kurawar Land Owner 0.72 58/1/2
28	58/1/2	Private	Non-irrigated	0.015	Satynarayan S/o Nandlaal Jati Mahajan Address Niwasi Kurawar Land Owner 0.71 58/1/2
29	58/1/3	Private	Non-irrigated	0.015	Satynarayan S/o Nandlaal Jati Mahajan Address Niwasi Kurawar Land Owner 0.71
30	58/1/4	Private	Diverted	0.025	Satynarayan S/o Nandlaal Jati Mahajan Address Niwasi Kurawar Land Owner 2646.00 58/1/4
31	58/2	Private	Irrigated	0.04	Bhagwan Singh S/o Sajin singh Jati Rajpoot Address Niwasi Biletri Land Owner 3.94 58/2
	<b>Village: Sagpur</b>				
32	145/1/1	Private	Irrigated	0.004	Bheru Singh S/o Devisingh Jati Rajpoot Address Gram Land Owner 1.90 145/1/1
33	145/4/2/2	Private	Diverted	0.005	Jagdish S/o Shivnarayan Jati Dhaakad Address Niwasi Grma Land Owner 210.00 145/4/2/2
34	148/2/11	Private	Non-irrigated	0.006	Navranglaal S/o Amarsingh Jati Dhakad Address Rajendra Nagar Bairagarh Bhopal Land Owner 0.05 148/2/11
35	148/2/5	Private	Irrigated	0.001	Mahesh Sanjay S/o Maangilaal Jati Address Niwasi Bus stand Narisngharh Land Owner 0.05 148/2/5
36	148/2/9	Private	Non-irrigated	0.006	Mrs Neelam Bai W/o Bhanuprakash Bhawnabai W/o Gopalprasad Jati Chip Address Narsingharh Land Owner 0.05 148/2/9
	<b>Village: Sonkachh</b>				
37	466/1	Private	Non-irrigated	0.073	Isarlaal S/o Baijnath Jati Daangi Address Gram Land Owner 3.75 466/1
38	466/2	Private	Non-irrigated	0.039	Vinod Kumar S/o Ranglaal Gulkandbai, Anitabai, S/o Ranglaal n Kesharbai Beva Ranglaal Jati Daangi

					Address Niwasi Gram Land Owner 3.75 466/2
39	466/3	Private	Non-irrigated	0.168	Chandarlaal S/o Baijnath Jati Daangi Land Owner 3.75 466/3
	<b>Village: Tindoniya</b>				
40	41/2/2/1/2/2	Private	Irrigated	0.036	Ramgopal S/o Haricharan Jati Khaati Address Niwasi Gram Land Owner 0.27 41/2/2/1/2/2
41	41/2/2/1/3/2	Private	Irrigated	0.089	Mrs Parwatibai S/o Dulichand Jati Kalaal Address Raoji ka Chowk Narisingharh Land Owner 1.06 41/2/2/1/3/2
			<b>TOTAL</b>	<b>2.505</b>	

[F. No. RW/NH-37014/24/2010-NHDP-IVA/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.